



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12032025-261571  
CG-DL-E-12032025-261571

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 165]  
No. 165]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 11, 2025/फाल्गुन 20, 1946  
NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 11, 2025/PHALGUNA 20, 1946

मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 2025

फा. सं. मौ.आ.रा.प्रौ.सं./अधिनियम/01/2025(अ).—मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल का बोर्ड राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 2007 (2007 का 29) की धारा 26 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल के कुलाध्यक्ष के अनुमोदन से, मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल परिनियम, 2017 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित परिनियम बनाता है, अर्थात्:—

- (1) इन परिनियमों का संक्षिप्त नाम मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल (संशोधन) परिनियम, 2025 है।
- (2) ये मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल पर लागू होंगे।
- (3) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल परिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात मूल परिनियम कहा गया है), में परिनियम 14 के, उप-परिनियम (iv) के पश्चात, निम्नलिखित उप-परिनियम अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(v) शासी बोर्ड के अध्यक्ष के कार्यकाल की समाप्ति, मृत्यु, त्यागपत्र या अन्य किसी कारण से पद रिक्त होने की स्थिति में या अध्यक्ष की अनुपस्थिति, बीमारी या किसी अन्य कारण से अपने कार्यों का निर्वहन करने में असमर्थ होने की स्थिति में, राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का अध्यक्ष, कुलाध्यक्ष के अनुमोदन से, छह महीने की अवधि के लिए या नियमित अध्यक्ष के नामांकन तक, जो भी पहले हो, अध्यक्ष को अधिनियम की धारा 16 के तहत सौंपे गए कार्यों का निर्वहन कर सकता है और कार्यकाल की समाप्ति की स्थिति में, कुलाध्यक्ष वर्तमान अध्यक्ष के कार्यकाल को छह महीने की अवधि के लिए या नियमित अध्यक्ष के नामांकन तक, जो भी पहले हो, बढ़ा सकता है।”

3. मूल परिनियम में, परिनियम 17 में, उप-परिनियम (15) का लोप किया जाएगा।

प्रो. करुणेश कुमार शुक्ल, निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./1023/2024-25]

**टिप्पणः** मूल परिनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में तारीख 23 अप्रैल, 2009 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 280 (अ) द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तारीख 15 अक्टूबर, 2015 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 837 (अ) और तारीख 21 जुलाई, 2017 के का.आ. 947 (अ) और तारीख 5 जुलाई, 2023 की फा.सं. मौ.आ.रा.प्रौ.सं/ अधिनियम/01/2023 द्वारा संशोधित किए गए थे।

## MAULANA AZAD NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY BHOPAL

### NOTIFICATION

New Delhi, the 21st February, 2025

**F. No. MANIT/Statutes/01/2025 (E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 26 of the National Institutes of Technology, Science Education and Research Act, 2007 (29 of 2007), with the approval of the Visitor of the Maulana Azad National Institute of Technology Bhopal, the Board of the Maulana Azad National Institute of Technology Bhopal, hereby makes the following Statutes to amend the Maulana Azad National Institute of Technology Bhopal Statutes, 2017, namely:—

1. (1) These Statutes may be called the Statutes of the Maulana Azad National Institute of Technology Bhopal (Amendment) Statute, 2025.

(2) They shall apply to the Maulana Azad National Institute of Technology Bhopal.

(3) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Maulana Azad National Institute of Technology Bhopal Statutes, 2017 (hereinafter referred to as the principal Statutes), in Statute 14, after sub-statute (iv), the following sub-statute shall be inserted, namely—

“(v) In the event of occurrence of any vacancy in the office of the Chairperson of Board of Governors by reason of expiry of his or her tenure, death, resignation or otherwise or in the event of the Chairperson being unable to discharge his or her functions owing to absence, illness or any other cause, the Chairperson of an Institute of National Importance, may discharge the functions assigned to the Chairperson under Section 16 of the Act, for a period of six months or till the nomination of a regular Chairperson, whichever is earlier, with the approval of the Visitor and in case of expiry of tenure, the Visitor may extend the term of the incumbent Chairperson for a period of six months or till the nomination of a regular Chairperson, whichever is earlier.”

3. In the principal Statutes, in Statute 17, sub-statute (15) shall be omitted.

Prof. KARUNESH KUMAR SHUKLA, Director

[ADVT.-III/4/Exty./1023/2024-25]

**Note:** The principal Statutes were published in the Gazette of India, Extraordinary, sPart II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R.280 (E) dated the 23rd April, 2009 and subsequently amended vide notification number G.S.R.837 (E) dated the 15th October, 2015, S.O.947(E) dated the 21st July, 2017 and F.No. MANIT/Statutes/01/2023 dated 5th July, 2023.